

सारणी सं. 5.7 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण
मार्च 2009

दक्षिणी क्षेत्र
लक्षद्वीप

(राशि लाख रुपयों में)

व्यवसाय	ग्रामीण			अर्ध शहरी		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6
I. कृषि	343	90	89	418	3,15	2,85
1. प्रत्यक्ष वित्त	342	87	86	413	2,87	2,56
2. परोक्ष वित्त	1	3	3	5	29	28
II. उद्योग	70	56	42	17	43	29
1. खनन तथा उत्खनन	—	—	—	—	—	—
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	1	—	—	1	5	—
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	—	—	—	1	5	—
(ख) चीनी	—	—	—	—	—	—
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	—	—	—	—	—	—
(घ) चाय अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(च) अन्य	1	—	—	—	—	—
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	—	—	—	—	—	—
4. वस्त्र	—	—	—	—	—	—
(क) सूती वस्त्र	—	—	—	—	—	—
(ख) पैटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	—	—	—	—	—	—
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	—	—	—	—	—	—
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	—	—	—	—	—	—
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	—	—	—	—	—	—
6. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	2	1	1	—	—	—
7. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	—	—	—	—	—	—
8. रत्न और आभूषण	—	—	—	—	—	—
9. रबर और प्लास्टिक उत्पाद	—	—	—	—	—	—
10. रसायन और रासायनिक उत्पाद	1	4	4	1	10	9
(क) भारी औद्योगिक रसायन	—	—	—	—	—	—
(ख) उर्वरक	—	—	—	—	—	—
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	—	—	—	—	—	—
(घ) खाद्यतेर तेल	—	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	1	4	4	1	10	9
11. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	—	—	—	—	—	—
12. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	—	—	—	—	—	—
13. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	2	28	15	1	6	3
(क) लोहा व इस्पात	1	3	3	—	—	—
(ख) अलोह धातु	1	25	12	—	—	—
(ग) धातु उत्पाद	—	—	—	1	6	3
14. अभियांत्रिकी	1	3	3	—	—	—
(क) भारी अभियांत्रिकी	1	3	3	—	—	—
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	—	—	—	—	—	—
(ग) विद्युत मशीनरी और सामान	—	—	—	—	—	—
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	—	—	—	—	—	—
15. वाहन, वाहन पुर्ज और परिवहन उपस्कर	—	—	—	—	—	—
16. अन्य उद्योग	63	19	18	6	6	2
17. विद्युत, गैस और जल	—	—	—	—	—	—
(क) विद्युत उत्पादन और प्रेषण	—	—	—	—	—	—
(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा	—	—	—	—	—	—
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	—
18. निर्माण	—	—	—	8	16	14
(क) आधारभूत निर्माण के अलावा	—	—	—	4	12	10
(ख) आधारभूत निर्माण	—	—	—	4	4	3
III. परिवहन परिचालक	12	19	19	8	61	43
IV. व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	226	1,11	1,04	33	33	38
1. व्यावसायिक सेवाएं	1	6	5	—	—	—
2. पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	3	19	14	—	—	—
3. मनोरंजन सेवाएं	—	—	—	—	—	—
4. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार	—	—	—	—	—	—
5. अन्य	222	86	85	33	33	38
V. वैयक्तिक ऋण	1,736	11,23	9,91	1,540	14,78	12,23
1. आवास	84	3,43	2,76	140	4,89	4,07
2. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	3	1	1	3	1	1
3. वाहन	22	42	40	16	27	24
4. शिक्षा	13	10	6	15	43	32
5. व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	—	—	—	366	1,92	1,92
6. अन्य	1,614	7,27	6,67	1,000	7,25	5,67
VI. व्यापार	122	1,46	1,04	131	3,06	2,70
1. थोक व्यापार	—	—	—	—	—	—
2. खुदरा व्यापार	122	1,46	1,04	131	3,06	2,70
VII. वित्त	—	—	—	—	—	—
VIII. अन्य सभी	165	1,07	1,06	21	2,88	2,76
कुल बैंक ऋण	2,674	16,52	14,56	2,168	25,24	21,63

टिप्पणी : लक्षद्वीप में शहरी और महानगरीय केंद्र नहीं हैं।